

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरात्र कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(AMiniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्रक० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/243

दिनांक - 28/08/2017

प्रेस विज्ञप्ति

स्वच्छता जागरूकता को एनसीएल ने बनाया जन अभियान

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में गत 16 अगस्त से आगामी 31 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों/इकाइयों की टीमों आम लोगों और कंपनी अधिकारियों अधिकारियों-अधिकारियों एवं उनके परिजनों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कई अभिनव कार्य कर रही हैं। इसी क्रम में रविवार एवं सोमवार को एनसीएल द्वारा निर्मित जन सुविधा भवन का लोकार्पण, विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण, साफ-सफाई, इस्टबिन (कचरा पेटी) वितरण, मेडिकल कैंप का आयोजन जैसे कार्य किए गए।

बीना क्षेत्र में क्षेत्र की प्रेरणा महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती किरण कुमार ने बीना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्षेत्र द्वारा बनाए गए नवनिर्मित जन सुविधा भवन का लोकार्पण कर उसे आम-जन के उपयोग हेतु समर्पित किया। साथ ही, क्षेत्र की टीम ने जमशिला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के बीच वृक्षरोपण हेतु मौसम्बी, नींबू, कटहल, आम, पपीता, अमरूद जैसे फलों के 500 पौधों का वितरण भी किया।

झिंगुरदा क्षेत्र ने सोमवार को बोदरहवा गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री चितरंजन सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिविर का शुभारंभ किया। झिंगुरदा क्षेत्र के स्टाफ अधिकारी (चिकित्सा) डॉ. निर्मल भौमिक की टीम ने शिविर में महिलाओं एवं बच्चों सहित कुल 57 लोगों का मेडिकल चेकअप कर आवश्यकतानुसार मरीजों को फ्री दवाइयां दीं। क्षेत्र की सुगंधा महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती अंजू सिंह के नेतृत्व में समिति की सदस्याओं ने बोदरहवा गांव में ही आम, अनार, जामुन, नींबू, आंवला, अमरूद और मौसम्बी जैसे फल एवं छायादार पौधों का रोपण किया।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरात्र कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(AMiniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

कृष्णशिला क्षेत्र की टीम ने रविवार को कृष्णशिला आवासीय कॉलोनी में लगभग 1200 फलदार पौधों का वितरण करने सहित परिसर में 100 पौधों का रोपण भी किया। साथ ही, क्षेत्र के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए स्वच्छता विषय पर आधारित प्रश्नोत्तरी (क्विज) प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया।

ककरी क्षेत्र की टीम ने रविवार को प्राथमिक विद्यालय ककरी, प्राथमिक विद्यालय रेहटा, मौलाना आजाद पब्लिक स्कूल ककरी, सरस्वती शिशु मंदिर ककरी, सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज ककरी और डीएवी पब्लिक स्कूल परासी विद्यालयों में 30 डस्टबिन बांटे। क्षेत्र की एकता महिला समिति की अध्यक्ष श्रीमती अनीता गोडसे के नेतृत्व में समिति की सदस्याओं ने भी डस्टबिन वितरण में सहयोग दिया।

ब्लॉक-बी क्षेत्र के कल्याणी महिला मंडल ने रविवार को नौढ़िया एवं गोरबी ग्राम पंचायतों की लड़कियों के लिए क्षेत्र के अधिकारी मनोरंजन गृह में स्वच्छता आधारित रंगोली एवं पेंटिंग बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की। महिला मंडल की सदस्याओं ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रतिभागियों को स्वच्छता में सहायक सामाग्री भी वितरित की। साथ ही, उन्होंने ब्लॉक-बी आवासीय परिसर में पौधरोपण भी किया और प्रतिभागी लड़कियों को अशोक के पेड़ के लगभग 50 पौधे अपने घरों के आसपास लगाने के लिए दिए।

खड़िया क्षेत्र ने अपने सफाई अभियान को जारी रखते हुए रविवार को शक्तिनगर-अनपरा मार्ग की सफाई की।

जनसम्पर्क अधिकारी